



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

जनवरी 10, 2025

संख्या 2

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024		2025	घट-बढ़	
	जनवरी 5	दिसंबर 27	जनवरी 3	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3346635	3525532	3525984	452	179349
1.1 संचलन में नोट	3346624	3525519	3525972	453	179348
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	10	14	12	-1	2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	952712	939428	908538	-30890	-44174
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8320	8496	8502	6	182
2.6 अन्य बैंक	51401	52335	50157	-2178	-1244
2.7 अन्य	541734	531371	406212	-125159	-135523
3 अन्य देयताएं	1747032	1905453	1926522	21069	179490
कुल देयताएं / आस्तियां	6647978	6962758	6826059	-136699	178081
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4589375	4758116	4715150	-42966	125775
2 सोना	394932	566843	575530	8687	180597
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1355500	1253916	1254773	857	-100727
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	21139	21841	36637	14796	15498
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	146557	244697	130502	-114195	-16055
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	123382	95649	91401	-4248	-31981
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	15030	19633	20003	370	4973

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 3, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2024 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5443633	634585	-33236	-5693	52377	-11834	309939	17282
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4679273	545480	-41774	-6441	-82571	-25470	133159	-1170
1.2 स्वर्ण	575530	67092	8687	824	136211	14417	180597	19603
1.3 विशेष आहरण अधिकार	152818	17815	-63	-58	1594	-317	644	-484
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	36012	4199	-85	-18	-2856	-463	-4462	-667

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 10, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 917971 करोड़	2024				2025								
	दिसंबर 28	दिसंबर 29	दिसंबर 30	दिसंबर 31	जनवरी 1	जनवरी 2	जनवरी 3	जनवरी 4	जनवरी 5	जनवरी 6	जनवरी 7	जनवरी 8	जनवरी 9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	941022	939014	947502	941167	941135	923942	914997						
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.5	102.3	103.2	102.5	102.5	100.7	99.7						

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	दिसंबर 27, 2024 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	291561	-19233	39924	-2910	47580	25518
1.2 बैंकों से उधार	138334	6343	121879	-44095	137794	-50744
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	26606	2183	11101	-45846	13078	-43020
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22063132 (21996441)	-5012	2044128 (1922841)	1587905	2354258 (2232971)	1975090 (2029687)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-	11.3 (10.7)	7.8	13.3 (12.6)	9.8 (10.2)
2.1.1 मांग	2570099	-40123	257074	126246	235753	132595
2.1.2 मीयादी	19493033	35111	1787054	1461660	2118504	1842496
2.2 उधारियां	955100	88166	313736	177158	318621	196036
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	996837	-146713	147479	59409	184492	59707
3 रिज़र्व बैंक से उधार	244697	135993	106267	21981	143880	-26655
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1028694	-41456	134759	7779	94702	-6235
4.1 उपलब्ध नकदी	89267	5289	4820	-167	-3532	-5816
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	939428	-46745	129939	7945	98235	-419
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	216848	-7546	8641	18520	11765	14784
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	18342	-4124	-7663	5987	-1642	1141
5.3 बैंकों को अग्रिम	40677	18	2920	-7691	-770	-3428
5.4 अन्य आस्तियां	64551	2576	33652	-50873	38271	-36232
6 निवेश	6594875 (6544007)	38018	575354 (474544)	488317	894459 (793648)	604373 (654315)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.6	10.6 (8.8)	8.0	17.6 (15.6)	10.1 (11.1)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6594377	38025	575444	488768	894575	604612
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	498	-7	-89	-451	-116	-239
7 बैंक ऋण	17742873 (17304330)	155992	2286709 (1713636)	1310709	2655091 (2082018)	1780929 (1915459)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	16.7 (12.5)	8.0	20.0 (15.6)	11.2 (12.4)
7 क.1 खाद्य ऋण	56139	3832	23233	33058	-10834	13000
7 क.2 खाद्यतर ऋण	17686734	152160	2263476	1277651	2665925	1767929
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17421883	147890	2247736	1287579	2604316	1749240
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	72063	5002	12835	11596	16959	19794
7 ख.3 भुनाए गए	211819	4010	33625	14461	39581	15283
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15551	-1154	-2140	-861	-1322	-1854
7 ख.5 भुनाए गए	21558	244	-5347	-2066	-4443	-1535

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/सामाज्य सामाह	2024					2025
	जनवरी 5	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20	दिसंबर 27	जनवरी 3
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.25	4.25	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.86	..	4.68	..
	..	..	(4.85)	..	(4.66)	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	77.91	..	78.67	..
	..	..	(79.69)	..	(80.42)	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	75.91	..	86.09	..
	..	..	(72.49)	..	(82.54)	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.57	..	29.75	..
	..	..	(29.71)	..	(29.89)	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	30.06	..	32.47	..
	..	..	(28.27)	..	(30.75)	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.73	6.48	6.64	6.71	6.71	6.60
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.94	6.43	6.45	6.47	6.55	6.60
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.15	6.54	6.61	6.64	6.70	6.72
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.13	6.53	6.58	6.63	6.69	6.70
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.24	6.76	6.74	6.82	6.79	6.78
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.18	84.66	84.84	85.09	85.59	85.76
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.88	89.53	88.74	88.17	89.11	88.11
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.33	1.99	2.29	2.89	3.70	3.12
3-माह	1.66	1.98	2.25	2.49	2.91	3.37
6-माह	1.59	2.04	2.25	2.37	2.61	2.86

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2023		2024	
	मार्च 31	दिसंबर 27	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	26513051 (26579741)	-9641 (-10766)	-0.04 (-0.04)	1912230	8.6	1681433 (1639881)	6.8 (6.6)	2396756	11.0	2257060 (2202464)	9.3 (9.0)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3459713	-16525	-0.5	-20321	-0.6	49437	1.4	133879	4.3	203598	6.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2711239	-40054	-1.5	259892	11.2	124351	4.8	238554	10.2	130750	5.1
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20240470 (20307160)	44554 (43429)	0.2 (0.2)	1669369	10.0	1500552 (1459000)	8.0 (7.7)	2006204	12.3	1902134 (1847538)	10.4 (10.0)
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	101629	2384	2.4	3290	4.2	7093	7.5	18119	28.8	20578	25.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	7849379 (7900247)	-199199 (-199197)	-2.5 (-2.5)	6274	0.1	337363 (296676)	4.5 (3.9)	606335	9.2	677572 (627630)	9.4 (8.6)
2.1.1 रिजर्व बैंक	1193213	1000891	-238205		-471467		-192322		-190595		21232	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6848488 (6899357)	39006 (39007)	0.6 (0.6)	477741	8.4	529686 (488998)	8.4 (7.6)	796930	14.8	656340 (606398)	10.6 (9.6)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (17202832)	18090649 (18529191)	189680 (182721)	1.1 (1.0)	1706980	11.8	1418504 (1326360)	8.5 (7.7)	2089739	14.9	1954033 (1819503)	12.1 (10.9)
2.2.1 रिजर्व बैंक	14406	10519	248		-21469		-3887		-14772		5439	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	18080130 (18518672)	189432 (182474)	1.1 (1.0)	1728448	12.0	1422391 (1330247)	8.5 (7.7)	2104511	15.0	1948594 (1814064)	12.1 (10.9)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567245	5690829	-60004	-1.0	425901	8.7	123584	2.2	588880	12.4	353162	6.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	35419	0	0	2311	7.6	1988	5.9	2996	10.1	2823	8.7
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	4953219 (5467219)	5153225 (5575945)	-59883 (-65714)	-1.1 (-1.2)	229236	5.5	200006 (108727)	4.0 (2.0)	891194	25.2	730530 (600655)	16.5 (12.1)
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1789875	1890916	-24942	-1.3	205382	12.9	101041	5.6	298158	19.9	97969	5.5

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	जनवरी 3	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4631446	4632057	-30770	-0.7	83355	1.9	611	0.0	264681	6.3	161943	3.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3511461	3561391	453	0.0	700	0.0	49930	1.4	124291	3.8	182171	5.4
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1025449	967198	-33062	-3.3	81957	8.8	-58251	-5.7	124406	14.0	-45236	-4.5
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	103468	1839	1.8	698	0.9	8931	9.4	15984	25.6	25009	31.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1193213	1177644	176754		-381454		-15568		-167649		107973	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1186655	1141050	161958		-401801		-45606		-171407		92474	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-46147	40677	-152634		214278		86824		177770		-79158	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-60553	30725	-152067		235596		91278		190727		-83879	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5289845	-34276	-0.6	397580	8.7	49022	0.9	504266	11.3	304910	6.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	33432	35419			2311	7.6	1988	5.9	2996	10.1	2823	8.7
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1789875	1911529	20613	1.1	149360	9.4	121654	6.8	252702	17.0	174605	10.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
दिसंबर 30, 2024	-	-	83238	-	385	99913	-	-	-	-16290
दिसंबर 31, 2024	-	-	50004	-	298	138004	-	-	-	-87702
जनवरी 01, 2025	-	-	-	-	666	115712	-	-	-	-115046
जनवरी 02, 2025	-	-	-	-	15	152048	-543	-	-	-152576
जनवरी 03, 2025	-	-	-	-	2179	99805	-	-	-	-97626
जनवरी 04, 2025	-	-	-	-	1398	94806	-	-	-	-93408
जनवरी 05, 2025	-	-	-	-	342	94235	-	-	-	-93893

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2023		2024		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.3	186.3	196.8	196.5	-0.2	5.8	5.5
1.1 ग्रामीण	187.0	188.2	199.5	199.4	-0.1	6.2	6.0
1.2 शहरी	183.4	184.2	193.7	193.1	-0.3	5.2	4.8
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.4	139.1	144.5	144.5	0.0	4.0	3.9
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	152.5	153.1	156.1	156.0	-0.1	3.0	1.9
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	185.3	187.6	200.3	197.9	-1.2	8.0	5.5
3.2 ईंधन और बिजली	155.5	156.2	146.5	147.1	0.4	-3.3	-5.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.4	140.2	142.5	143.0	0.4	2.1	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 13, 2024	488257	74226	6.96 - 7.75
दिसंबर 27, 2024	494417	59839	7.02 - 7.85

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 15, 2024	463801	98956	7.00 - 11.89
दिसंबर 31, 2024	435779	51524	6.98 - 12.00

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 05, 2024	दिसंबर 27, 2024	जनवरी 03, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	14687	18396	15234
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4519	716	5118
3 त्रिपक्षीय रेपो	605163	698889	770717
4 बाजार रेपो	479474	452238	614692
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	222	8475	8232

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 3, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	4580	9295	108346	214446
182-दिवसीय	47781	37733	7515	173115
364-दिवसीय	75174	109132	35185	375185
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2024-25 (जनवरी 3, 2025 तक)	2023-24 (जनवरी 5, 2024 तक)	2023-24	2024-25 (जनवरी 3, 2025 तक)	2023-24 (जनवरी 5, 2024 तक)	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1121697	1306000	1543000	772271	925404	1102871
2. राज्य सरकारें	638876	620014	1007058	434221	417799	717140

WSS वेबसाइट पर उपलब्ध है। WSS हफ्ता के लिए तैयार किया जाता है। (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762) में उपलब्ध है।

समग्र रूप से आंकड़ों का स्रोत रबी वेबसाइट पर https://data.rbi.org.in/ में उपलब्ध है।

डिजाइन: जे. वि. ननए, निदेशक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, नई दिल्ली - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित है।